

"Har kaam Desh ke Naam"

रिक्ति परिपत्र

सं. ए / 34077 / ओ-1 / 2021 / मुप्राम / भर्ती-3

भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय

(संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय)

हॉल संख्या-1, पहली मंजिल, ए ब्लॉक
डिफेन्स ऑफिसर काम्पलेक्स, अफ्रीकन अवेन्यु,
नियर सरोजनी नगर डिपो,
नई दिल्ली-110011

दिनांक : दिसम्बर 2021

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव

विषय : रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृद्ध मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, में 'ऑफसेट मशीनमैन' के एक पद (01) को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरे जाने हेतु।

महोदय / महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृद्ध मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, में 'ऑफसेट मशीनमैन' के एक पद (01) को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरे जाने की आवश्यकता है। इस पद का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

पद एवं वर्गीकरण : ऑफसेट मशीनमैन
साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'
अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन भैट्रिक्स : रत्तर-6

पृष्ठ.....2/.....

80 (E.1X)
AP-506/US/EIA
Date 13/1/22

अर्हता शर्त : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपकरणों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जिन्होंने मूल काड़र या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काड़र या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काड़र या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में रत्नर-4 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बारहवीं या समतुल्य अर्हता।

2. (i) भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण या ऑफसेट मुद्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा और साथ ही किसी सरकारी मुद्रणालय में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव; या

(ii) भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण या ऑफसेट मुद्रण में दो वर्षीय प्रसाण-पत्र और साथ ही किसी सरकारी मुद्रणालय में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव ;

2. कार्य रूपरेखा :-

(i) एक, दो, तीन व चार रंगों की ऑफसेट प्रेस पर एकल तथा सभी प्रकार के बहुरंगी कार्य के गुणता उत्पादन की जिम्मेदारी।

(ii) पर्यवेक्षक के अनुदेशानुसार रंगो को मिलाना व उनमें सुमेल रखना।

(iii) अनुभाग की मशीनों की रखरखाव तथा उन्हें सही स्थिति में रखना।

- (iv) भंडार—कक्ष से सामग्री निर्गम वाउचर पर प्राधिकृत व्यक्ति से आवश्यक मंजूरी लेने के पश्चात भंडार—कक्ष से कागज और अन्य सामग्री लेना तथा विशेष कार्य के लिए जारी ऐसी सभी सामग्रियों तथा वस्तुओं का लेखा—जोखा रखना।
- (v) गुणता बनाए रखते हुए कार्य की अपेक्षित गुणता का आउट—टर्न मुहैया करना।
- (vi) समय—समय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए कार्य से संतुष्टि किन्हीं अन्य कार्यों को पूरा करना।
3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
4. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को का ज्ञा सं 6/8/2009--Estt (Pay II) दिनांक 17—6—2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।
5. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) पिछले 05 वर्षों के पूर्ण एवं अधितन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/ए पी ए आर अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) के साथ प्रशासनिक अधिकारी/भर्ती—3, संयुक्त सचिव एवं मुप्रां, रक्षा मंत्रालय, ई ब्लॉक, कमरा संख्या 174 दारा शुकोह रोड, नई दिल्ली 110011 को इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर क्लीयरेंस), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बरैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सर्तकता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा एक अलग से प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक हैं एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया हैं।

6. जीवन-वृत का प्रारूप पत्र हमारी वेबसाइट www.caomod.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस रिकित परिपत्र को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपकरण, अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में प्रचालित करें।

टिप्पणी :- पढ़ के लिए एक बार आवेदन करने वाले अध्यर्थियों वगे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(जेड एस कोईरेंग)

उप निदेशक, मुप्रअ/भर्ती 1 एवं 3
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रति :-

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के सभी समन्वय अनुभाग

डी पी ओ/ए ओ पी शाखा, एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (वायुसेना)

डी ओ पी/सी ओ पी, कार्मिक निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग

सं.स.(मुप्रअ) कार्यालय के सभी अनुभाग

मुप्रअ/का-2 (बी) - आपके नोट संख्या A/25267/DR/CAO/P-2(B) दिनांक 01/07/21
के संदर्भ में सूचनार्थ।

मुप्रअ/ई डी पी : मुप्रअ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।